

# कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ़

पट्टा संख्या : 231

दिनांक 28/03/2012

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति  
और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह 3 के 28 वें दिन नगरपालिका सभाकाल संख्या 231  
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पट्टा एवं श्रा  
जाति 1107/व्यवसाय 1145/निवासी 1145/ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पट्टा तथा इस इवारत  
में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टा धारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रशीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना 1107/राजस्व ग्राम 2012/16 के खसरा संख्या 835/क्षेत्रफल 29242.45 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपण वाणित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित लिखे गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 446276/उक्त भूखण्ड के मात्र पेशागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगा।

3. पट्टा की अवधि :- पट्टाधृत अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 1107/राजस्व ग्राम के लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिक्रित अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निवंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निवंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ 'स रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण 5 निष्क्रिय की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नि व के अधीन कोई फीस प्रभारी नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से बसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि वा अधिसंघ या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दम्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निवंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्राचीरों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिवाय बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अश्वा नेशनल बैंक द्वारा जीवन संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकता है।

## परिशिष्ट

कस्बे का नाम : भूखण्ड पूर्व ..... पश्चिम ..... भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .....  
 राजस्व ग्राम : भूखण्ड सीमा उत्तर ..... दक्षिण ..... मानचित्र संलग्न है ।  
 खसरा नम्बर : 835, 1283/835, 836  
 योजना का नाम : कुरुक्षेत्र 234.6, 227. पूर्व 537. फीट  
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज / मीटर : 29.142.15 उत्तर 594.3 फीट  
29.142.15 दक्षिण 153.6 फीट

पट्टा तैयारकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।  
**नगरीय निकाय की ओर से**

आज सन् 20/12 के माह 2018 के 28 वें दिन

श्री राजनीति अध्यक्ष ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) भूखण्ड में हस्ताक्षर किये -

राजनीति  
अध्यक्ष  
नगरपालिका  
(हस्ताक्षर एवं माहर)  
भूखण्ड (मुकुट)

नगर निकाय - प्रथम पक्ष  
(सक्षम आधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम ..... राजनीति  
पुत्र ..... निराला भूखण्ड  
व्यवसाय ..... कार्यालय  
निवास स्थान ..... भूखण्ड

2. नाम ..... राजनीति  
पुत्र ..... निराला भूखण्ड  
व्यवसाय ..... कार्यालय  
निवास स्थान ..... भूखण्ड

RModi

साक्षी

28/12

साक्षी

आज ..... सन् 20 ..... के माह ..... के

वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री

राजनीति, भूखण्ड

लीजधारक द्वारा कार्यालय ..... में हस्ताक्षर किये गये। 21.5.13

RModi

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम ..... राजनीति 214 एकड़ नं. 19 2380  
पुत्र ..... निराला भूखण्ड वर-पर्यायन किया गया।  
व्यवसाय ..... कार्यालय जल्दि पु. सं. 1 विल नं. 570 RModi  
निवास स्थान ..... भूखण्ड नम्बर ११५-११६ वस्त्या निवास

2. नाम ..... राजनीति 28/12  
पुत्र ..... निराला भूखण्ड  
व्यवसाय ..... कार्यालय  
निवास स्थान ..... भूखण्ड

साक्षी

28/12

साक्षी

NORTH



REF :-

1. COMMERCIAL AREA :- 172.49 Sq.Yds.
  2. INSTITUTIONAL AREA :- 29069.66 Sq.Yds.
- TOTAL AREA:- 29242.15 Sq.Yds.

EXISTING PLAN SHOWING OF INSTITUTIONAL BUILDING FOR  
SH. SRI GOPAL BARASIA AND PAWAN BARASIA MANEGING TRUSTI,  
GANPAT RAI RAMKISAN CHERITABLE TRUST, MUMBAI, IN LAND  
KH.NO. 835,1383/ 835,836, SITUATED AT YOJANA CHIRAWA ROAD  
COLONY PHASE-II, W.NO. 2, SURAJGARH,  
DISTT.JHUNJHUNU ( RAJ.)

OWNER CUM SECRETARY :- SH. SRI GOPAL BARASIA S/o SH. JUGAL KISORE  
BARASIA, BY CASTE -- MAHAJAN, SURAJGARH, DISTT. JHUNJHUNU ( RAJ.)

SIG. OF OWNER :-

SHOT ON REDMI 7  
A1 DUAL CAMERA

SCALE :- 1"=16'-0"

DATE :- 22/3/2013

DWG.NO. - AAC/511/13

D. By:-

M. K. VERMA, ARCHITECT,  
SURAJGARH,  
PH. 01596-237621, 9351237621



कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ़, जिला—झुन्झुनूं (राज0)



Office Ph.- 01596-237463

Email- surajgarh.jaipur@yahoo.com

क्रमांक : / न0पा0सू0/2017-18/ १५७

दिनांक : 22-8-17



प्रमाणित किया जाता है कि नगरपालिका सूरजगढ़ द्वारा पट्टा संख्या 231 दिनांक 28.03.2013 को श्री गोपाल बरासिया, एस. बरासिया मैनेजिंग ट्रस्टी गणपतराय रामकिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जारी किया हुआ जोकि भूलवंश नाम गलत हो गया है अब उक्त पट्टे को श्री गणपतराय रामकिशन बरासिया चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई ट्रस्टी श्री गोपाल बरासिया, पवन बरासिया के नाम से पढ़ा जावे। जोकि सही व सत्य है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 22-8-17 को जारी किया जाता है।

अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका सूरजगढ़  
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ग्रामिल रहे

*[Signature]*

ग्रामिल सूरजगढ़